

[Insert name of recipient and address here (optional)]

प्रिय माता-पिता और देखभालकर्ता

आपके बच्चे/आपकी बच्ची का पारगमन शिक्षण और विकास वक्तव्य

अपने बच्चे/अपनी बच्ची को स्कूल के लिए एक सकारात्मक शुरुआत करने में सहायता देने के उद्देश्य से हम उनके लिए एक पारगमन शिक्षण और विकास वक्तव्य लिख रहे हैं। पारगमन वक्तव्य आपके बच्चे/आपकी बच्ची के शिक्षण और कल्याण के बारे में जानकारी निम्नलिखित के साथ साझा करने का एक तरीका है:

- आपके साथ
- हमारी सेवा के साथ
- आपके बच्चे/आपकी बच्ची के भविष्य के स्कूल के साथ
- आपके बच्चे/आपकी बच्ची के भविष्य में स्कूली घंटों के बाद देखभाल [Outside School Hours Care (OSHC)] सेवा के साथ, यदि वे ऐसी किसी सेवा में जाएँगे।

पारगमन वक्तव्य (Transition Statement) में इन बातों के बारे में जानकारी होगी:

- आपके बच्चे/आपकी बच्ची के हित, कुशलताएँ और क्षमताएँ
- अपने बच्चे/अपनी बच्ची को सबसे अच्छी तरह से सीखने के लिए समर्थन कैसे दें।

इस जानकारी से स्कूल को आपके बच्चे/आपकी बच्ची को सबसे अच्छी तरह से समर्थन देने में मदद मिलेगी।

हम आपके द्वारा क्या किए जाने के इच्छुक हैं

पारगमन वक्तव्य में अलग-अलग अनुभाग हैं, जिन्हें आपके बच्चे/आपकी बच्ची के आरंभिक बचपन के शिक्षक, आपके, और आपके बच्चे/आपकी बच्ची द्वारा भरा जाना चाहिए। कृपया अनुभाग 3: परिवार को पूरा करें [एवं अपने बच्चे/अपनी बच्ची को अनुभाग 2: बच्चा/बच्ची को पूरा करने में सहायता दें, और [insert date here] तक इसे हमारी सेवा में वापिस कर दें।

आपका योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। यह आपके बच्चे/आपकी बच्ची के प्रेप शिक्षक (और यदि वे OSHC में जाते हैं, तो उनके OSHC शिक्षक) को आपके बच्चे/आपकी बच्ची के बारे में बेहतर समझ प्रदान करेगा और आपके बच्चे/आपकी बच्ची के शिक्षण और कल्याण की योजना बनाने में उनकी सहायता करेगा।

आगे क्या होगा

आपके बच्चे/आपकी बच्ची के आरंभिक बचपन शिक्षक पारगमन वक्तव्य के सभी अनुभागों को एक-साथ मिलाएँगे और आपको एक प्रति देंगे। आपके बच्चे/आपकी बच्ची के स्कूल को नवंबर में कॉपी मिलेगी। यदि आप परिवार और बच्चा/बच्ची अनुभाग को पूरा नहीं करते/करती हैं, तो भी पारगमन के बाकी विवरण आपके बच्चे/आपकी बच्ची के स्कूल, तथा यदि लागू हो, तो उनकी OSHC सेवा के साथ साझा किए जाएँगे।

अनुसंधान से पता चलता है कि जानकारी को साझा करने से बच्चों को सफलतापूर्वक स्कूल में पारगमन करने में सहायता मिलती है। लेकिन यदि आप पारगमन विवरण को अपने बच्चे/अपनी बच्ची के स्कूल के साथ साझा नहीं किया जाना

चाहते/चाहती हैं, तो कृपया [insert date here] तक अपने बच्चे/अपनी बच्ची के आरंभिक बचपन शिक्षक के साथ बात करें।

अपने बच्चे/अपनी बच्ची का स्कूल में नामांकन कराना

यदि आपने अगले वर्ष के लिए अपने बच्चे/अपनी बच्ची का स्कूल में पहले से ही दाखिला नहीं करवाया है, तो मैं आपको यथाशीघ्र ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। दाखिला कराने से स्कूल को आपके बच्चे/आपकी बच्ची की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बारे में योजना बनाने में सहायता मिलेगी। शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग के पास स्कूल शुरू करने के बारे में उपयोगी जानकारी यहां उपलब्ध है: <https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx>।

और अधिक जानकारी

[please select relevant text based on whether you are providing this information electronically or by hard copy]

[Option 1 – direct parents to website – delete whichever option not used]

पारगमन वक्तव्य को पूरा करने और स्कूल के लिए एक सकारात्मक शुरुआत करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया ये संसाधन देखें:

- परिवारों के लिए सूचना पत्र
- पारगमन शिक्षण और विकास वक्तव्य को पूरा करने में परिवारों की सहायता के लिए दिशानिर्देश।

ये वेबसाइट www.education.vic.gov.au/transitiontoschool पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used]

पारगमन वक्तव्य को पूरा करने और स्कूल के लिए एक सकारात्मक शुरुआत करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया संलग्न संसाधन देखें:

- परिवारों के लिए सूचना पत्र
- पारगमन शिक्षण और विकास वक्तव्य को पूरा करने में परिवारों की सहायता के लिए दिशानिर्देश।

यदि आप अपने बच्चे/अपनी बच्ची के स्कूल में संक्रमण के बारे में चर्चा करना चाहते/चाहती हैं, तो कृपया [insert name of early childhood educator] से बात करें।

भवदीय

[Name of early childhood educator]

[Day] [Month] [Year]